

PRODUCT CARE



Dry in shade on a flat surface.



Wipe with a clean, moist & lint free fabric to clean.

EC REP

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



Catalogue number



Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali (160 055), (Pb) India
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO
9001



W.H.O.
G.M.P.

ISO
13485



US FDA
registered

www.tynorindia.com



Cast Shoe (Rocker sole)

कास्ट शू (रॉकर सोल)

Bota ortopédica (suela balancín)

Chaussure de plâtre (Semelle à bascule)

حذاء الجبيرة (النعل المَهْرَاز)

REF C 08



UM-C08-18-1

USER MANUAL

Cast Shoe (Rocker sole)

English

Cast Shoe (Rocker sole) replaces the functions of the normal shoe when patient is on foot cast. Prevents excessive wear & tear of the cast and reduces impact on the injured leg. It ensures high degree of hygiene and improves gait of the patient on foot cast. The design ensures easy wearing and removal.

CONSTRUCTION:

Sole is made out of sturdy EVA with non skid properties. The rocker shape ensures a natural gait on foot cast and deloading of the injured ankle in the stance phase of the walk. The upper body is carefully crafted with a complex mesh, to provide good aesthetics and good grip to the cast. Hook loop straps hold the cast shoe firmly in position, helps in easy wearing and removal of the shoe.

APPLICATIONS:

- Deloading of the injured ankle
- Protects the cast from wear, tear and mechanical damage
- Protects the cast from wetting and soiling
- Reduces impact on the injured leg while walking
- Promotes hygiene
- Improves the gait of the patient on cast
- Better balance and early ambulation of the patient



CAUTION/RECOMMENDATION : The length of the cast shoe should be a little longer than the length of the foot.

INSTRUCTIONS:

- Use this product on the recommendation of a qualified doctor.
- Follow the standard instructions for fracture and cast maintenance.
- This device in no way helps in quick healing of the fractures or early removal of the cast. It only ensures protection of the cast.
- Remove the cast shoe while on bed. Wear before stepping out of it.
- It can be worn straight on the foot cast without any other aid.

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें Comment utiliser: كيفية الاستخدام

1.



- The plastered foot is placed in the cast shoe.
- प्लास्टर किये हुए पैर को कास्ट शू में डाला जाता है।
- El pie enyesado se coloca en la funda de pie.
- Le pied plâtré est placé dans la chaussure de plâtre.
- يتم وضع القدم الجبصي في الحذاء المسبوك.

2.



- The front closure hook tab is then fixed on one flap, to ensure equal proportions for both the flaps of the shoe.
- आगे से बन्द होने वाले हुक टैब को एक फ्लैप में कस दिया जाता है, और जूते के दोनों फ्लैप्स में समान अनुपात को सुनिश्चित कराएँ।
- El gancho del cierre delantero se fija en una lengüeta, para asegurar proporciones equivalentes para las lengüetas del zapato.
- La languette du crochet de fermeture avant est ensuite fixée sur un rabat, pour assurer des proportions égales pour les deux volets de la chaussure.
- يتم تثبيت مفتاح الإغلاق الأمامي على المسدلة، لضمان نسبة متساوية لكل من مسدلة الحذاء.

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें Comment utiliser: كيفية الاستخدام

3.



- The front closure hook tab is then fastened to the other flap of the shoe.
- आगे से बन्द होने वाले हुक टैब को दूसरे जूते के फ्लैप के साथ कस दिया जाता है।
- El gancho del cierre delantero se aprieta a la otra lengüeta del zapato.
- La languette du crochet de fermeture avant est ensuite fixée à l'autre rabat de la chaussure.
- يتم ربط مفتاح الإغلاق الأمامي مع المسدلة الأخرى للحذاء.

4.



- The Ankle strap is then fastened by a reverse buckle mechanism around the leg to a comfortable tightness.
- घुटने के स्ट्रैप को इसके बाद रिवर्स बकलिंग तंत्र की मदद से पैर के आस पास सुविधाजनक कसावट के लिए बांधें।
- La correa del tobillo se ajusta por un mecanismo de cierre inverso en torno a la pierna en un agarre confortable.
- La bride de la cheville est ensuite fixée par un mécanisme de boucle arrière autour de la jambe pour une étanchéité confortable.
- يتم ربط حزام الكاحل بواسطة آلية الالتواء العكسي حول الساق للتمكن من ربطه مريحة.